



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 557

27 shrawan, 1938 (S)

Ranchi, Friday, 18th AUGUST, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

18th AUGUST, 2017

S.O-61 Dated 18th AUGUST, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 61 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, read with section 168 of the Jharkhand Goods and Services Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, specifies that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal before the dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Serial Number	Month	Date for filing of GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	20 th August, 2017
2.	August, 2017	20 th September, 2017.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 8th day of August, 2017.

(File No.Va Kar/GST/7/2017)

By the Order of the Governor of Jharkhand,

Baijnath Ram,
Joint Secretary to the Government.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त, 2017

एस० ओ०-61 दिनांक 18 अगस्त, 2017-- आयुक्त, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप-जीएसटीआर-3ख में इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व दी जाएगी, अर्थात्:--

सारणी

क्रम सं०	मास	जीएसटीआर-3ख फाइल किए जाने की तारीख
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई, 2017	20 अगस्त, 2017
2	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017

2. यह अधिसूचना 8 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वांकर/जी०एस०टी०/07/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से ,

बैजनाथ राम,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
